

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 111]

दिल्ली, शुक्रवार, मई 18, 2018/वैशाख 28, 1940

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 525

No. 111]

DELHI, FRIDAY, MAY 18, 2018/VAISAKHA 28, 1940

[N.C.T.D. No. 525

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शिक्षा निदेशालय

(शिक्षा का अधिकार शाखा)

अधिसूचना

दिल्ली, 17 मई, 2018

सं. फा. 23(7)/डीई/आरटीई/2011/369—नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार (2009 का 35) की धारा-II की उपधारा (क) के खण्ड (ii) के उपखण्ड (ख) के साथ पठित धारा 38 तथा धारा 34 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित संरचना अनुसार राज्य सलाहकार परिषद गठित करती है।

अध्यक्ष

माननीय शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

पदेन सदस्य

1. सचिव (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
2. निदेशक (शिक्षा), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
3. निदेशक, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद।
4. अध्यक्ष, दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग।
5. राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान।
6. अतिरिक्त शिक्षा निदेशक (स्कूल), शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार जो परिषद के पदेन सदस्य सचिव होंगे।

नामित सदस्य

1. प्रो० विनीता कौल, प्रोफेसर एवं निदेशक शिक्षा अध्ययन विभाग एवं बचपन शिक्षा एवं विकास केन्द्र की संस्थापक निदेशक, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।
2. डॉ० एनी कौशी, प्रधानाचार्य, सेंट मैरी स्कूल, दिल्ली।
3. श्री अखा कायहर माउ, सहायक प्रोफेसर, शिक्षा अध्ययन विभाग, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली।
4. डॉ० डी० परीमाला, सहायक प्रोफेसर, केंद्रीय शिक्षा संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।
5. श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा, प्रचालन अध्यक्ष, प्रथम शिक्षा फाउंडेशन, दिल्ली।
6. सुश्री दिव्या जालान, आडी (एक्शन फॉर एबिलिटी डेवलपमेंट एंड इनक्लुजन – AADI) की संस्थापक सदस्य।
7. श्री रवि गुलाटी, संस्थापक, मंजिल वैलफेयर सोसायटी, दिल्ली।
8. सुश्री अतिशी मरलीना।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के उपबंधों को प्रभावी तरीके से लागू करने के संबंध में राज्य सरकार को सलाह देना राज्य सलाहकार परिषद का कार्य होगा। शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, राज्य सलाहकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करेगा।

निबंधन एवं शर्तें अलग से अधिसूचित की जायेंगी।

राज्य सलाहकार परिषद के नामित सदस्यों के कार्यकाल की अवधि इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से दो वर्ष की होगी।

यह अधिसूचना, पुर्ववर्ती अधिसूचना नं० 23(7)/डीई/आरटीई/2011/442-454 दिनांक 02.02.2016 और अधिसूचना नं० 23(7)/डीई/आरटीई/2011/1276-1290 दिनांक 08.05.2017 का स्थान लेगी।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के उपराज्यपाल
के आदेश से और उनके नाम पर,
गरिमा गुप्ता, विशेष सचिव (शिक्षा)

DIRECTORATE OF EDUCATION:**(Right To Education Branch)****NOTIFICATION**

Delhi, the 17th May, 2018

No. F.23 (7)/DE/RTE/2011/369.— In exercise of the powers conferred by section 38 and sub-section (1) of section 34 read with sub clause (B) of clause (ii) of sub-section (a) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby constitutes the State Advisory Council as per the following composition:-

Chairperson

Hon'ble Minister of Education, Government of National Capital Territory of Delhi.

Ex-Officio Members

1. Pr. Secretary (Education), Government of National Capital Territory of Delhi
2. Director (Education), Government of National Capital Territory of Delhi
3. Director, State Council of Educational Research and Training (SCERT)
4. Chairperson, Delhi Commission for Protection of Child Right (DCPCR)
5. State Project Director (Sarv Shiksha Abhiyan)
6. Additional Director of Education (Schools), Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi shall be ex-officio Member Secretary of the Council

Nominated Members

1. Prof. Venita Kaul, Professor and Director of School of Education Studies and Founder Director of Centre for Early Childhood Education and Development (CECED) at the Ambedkar University, Delhi.
2. Dr. Annie Koshi, Principal, St. Mary's School, Delhi
3. Mr. Akha Kaihrii Mao, Assistant Professor, School of Education Studies, Ambedkar University, Delhi
4. Dr. D. Parimala, Assistant Professor, Central Institute of Education, University of Delhi.
5. Mr. Shailendra Kumar Sharma, Head of Operations, Pratham Education Foundation, Delhi
6. Ms. Divya Jalan, Founder member of AADI (Action for Ability Development and Inclusion)
7. Mr. Ravi Gulati, Founder, Manzil Welfare Society, Delhi
8. Ms. Atishi Marlena.

The function of the State Advisory Council shall be to advise the State Government on implementation of the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 in an effective manner. The Directorate of Education, Government of National Capital Territory of Delhi will serve as the Secretariat to the State Advisory Council.

The terms and conditions would be notified separately.

The period of tenure of nominated members of State Advisory Council would be two years from the date of issue of this notification.

This notification replaces the previous notifications No. 23(7)/DE/RTE/2011/442-454 dated 02.02.2016 and No.23(7)/DE/RTE/2011/1276-1290 dated 08.05.2017.

By Order and in the Name of
Lt. Governor of the National Capital
Territory of Delhi.

GARIMA GUPTA , Spl. Secy. (Education)